

प्रेस नोट

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज

दिनांक- सितम्बर 24 , 2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***60 वाहनों का चालान व 07 वाहनों से कुल 3400/-रूपया शमन शुल्क वसूल*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया। व 03 वाहन को सीज किया गया।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा ***188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 26*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व ***मास्क न लगाने वाले कुल- 67 व्यक्तियों से 6700/- रुपये शमन शुल्क*** वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से ***कुल- 16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया। धारा 290 भा0द0वि0 मे 10 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध की गई कार्यवाही:- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल- 01 अभि0 को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण-

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त फेदारु पुत्र बसन्त नि0 हरपुर तिवारी थाना श्यामदेउरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से ***10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर *मु0अ0सं0-197/20, धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए ***कुल-10*** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 23/24/09/2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 17 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।